

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 471 ]

भोपाल, शनिवार दिनांक 26 अगस्त 2017—भाद्र 4, शक 1939

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2017

क्र. एफ-65 NN-01-2017-पांच-807.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद् शहडोल, जिला शहडोल के माह अगस्त 2017 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगरपालिका परिषद्/ नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु		निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
			अंकों में	शब्दों में		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगरपालिका परिषद् शहडोल, जिला शहडोल.	अध्यक्ष	—	—	श्रीमती उर्मिला कटारे	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	लल्ला कोल	निर्दलीय
3		पार्षद	2	दो	जवाहर कोल	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	मो. सुफियान	भारतीय इण्डियन कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	अमित सोनी	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	घनश्याम दास जयसवाल	भारतीय इण्डियन कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः	संचिता राजा सर्वटे	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	इन्जी. गोविन्द सिंह परिहार	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	प्रभात पाण्डेय (डॉक्टर)	भारतीय इण्डियन कांग्रेस

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10	नगरपालिका परिषद् शहडोल, जिला शहडोल.	पार्षद	9	नौ	श्रीमति शालिनी प्रदीप शुक्ला	निर्दलीय
11		पार्षद	10	दस	जितेन्द्र सिंह (जितू)	निर्दलीय
12		पार्षद	11	ग्यारह	कमरून निशा	भारतीय इण्डियन कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	श्रीमती विंधेश्वरी सिंह परस्ते.	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	गोपाल रत्नम	निर्दलीय
15		पार्षद	14	चौदह	संध्या सिंह w/o श्री वीरेंद्र सिंह परिहार.	निर्दलीय
16		पार्षद	15	पंद्रह	आशा शर्मा	भारतीय जनता पार्टी
17		पार्षद	16	सोलह	अनुराग शुक्ला (आकाश)	भारतीय जनता पार्टी
18		पार्षद	17	सत्रह	दिव्या शुक्ला	निर्दलीय
19		पार्षद	18	अठारह	संतोष लोहानी	भारतीय जनता पार्टी
20		पार्षद	19	उन्नीस	अंजना सिंह "रवि"	निर्दलीय
21		पार्षद	20	बीस	प्रीती बत्रा	निर्दलीय
22		पार्षद	21	इक्कीस	महेश भागदेव	भारतीय जनता पार्टी
23		पार्षद	22	बाईस	ओमप्रकाश चौधरी (लल्लू)	भारतीय इण्डियन कांग्रेस
24		पार्षद	23	तेईस	श्रीमती उर्मिला देवी विश्वकर्मा	निर्दलीय
25		पार्षद	24	चौबीस	कुन्तला दिनेश दीक्षित	भारतीय जनता पार्टी
26		पार्षद	25	पच्चीस	कविता शीतल पोद्दार	भारतीय जनता पार्टी
27		पार्षद	26	छबीस	श्रीमती शोभा रिछारिया	भारतीय जनता पार्टी
28		पार्षद	27	सत्ताईस	प्रीतम दास सोनी	भारतीय इण्डियन कांग्रेस
29		पार्षद	28	अठ्ठाईस	शक्ति लक्षकार	भारतीय जनता पार्टी
30		पार्षद	29	उन्तीस	रेश्मा बानो पति समीर खान	भारतीय इण्डियन कांग्रेस
31		पार्षद	30	तीस	दानिश अहमद	भारतीय इण्डियन कांग्रेस
32		पार्षद	31	इकतीस	कुलदीप निगम	भारतीय इण्डियन कांग्रेस
33		पार्षद	32	बत्तीस	गीता खरे	भारतीय इण्डियन कांग्रेस
34		पार्षद	33	तैंतीस	उत्तरी बांधे	निर्दलीय
35		पार्षद	34	चौंतीस	रजनी प्रोम्पी सिंह	भारतीय जनता पार्टी
36		पार्षद	35	पैंतीस	शैलबाला सोनी	भारतीय इण्डियन कांग्रेस
37		पार्षद	36	छत्तीस	गीता राजू यादव	भारतीय जनता पार्टी
38		पार्षद	37	सैंतीस	सरिता मिश्रा	भारतीय इण्डियन कांग्रेस
39		पार्षद	38	अड़तीस	मो. इसहाक	भारतीय इण्डियन कांग्रेस
40		पार्षद	39	उनतालीस	राजकुमारी यादव	निर्दलीय

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2017

क्र. एफ-65 NN-01-2017-पांच-808.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद् बुढ़ार, जिला शहडोल के माह अगस्त, 2017 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्र. (1)	नगरपालिका परिषद्/ नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित (2)	नगर पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद (3)	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु (4) अंकों में (5) शब्दों में		निर्वाचित व्यक्ति का नाम (6)	दल से सम्बद्धता (7)
			अंकों में	शब्दों में		
1	नगर परिषद्, बुढ़ार, जिला शहडोल.	अध्यक्ष	—	—	कैलाश विश्नानी	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	मोहम्मद शाहिद "चीनी"	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	बाबू लाल गुप्ता	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	जानकी सोनी	निर्दलीय
5		पार्षद	4	चार	संतोष प्रजापति	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	विनय सिंह	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	देववती गुड्डा केवट	बहुजन समाज पार्टी
8		पार्षद	7	सात	सकुंतला देवी सिंह	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ	कामिनी	निर्दलीय
10		पार्षद	9	नौ	अंजू अरविन्द नायक	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	पुष्पेन्द्र ताम्रकार (पुस्सु)	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	सुभाना लाल जी पटेल	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	आफताब अहमद "अप्पू"	निर्दलीय
14		पार्षद	13	तेरह	लल्ला सेन	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	मनोरमा दीपू सिंह	निर्दलीय
16		पार्षद	15	पंद्रह	सती सिंह	इण्डियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

## अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2017

क्र. एफ-65 NN-01-2017-पांच-809.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद् जयसिंहनगर, जिला शहडोल के माह अगस्त, 2017 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगरपालिका परिषद्/ नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	नगर पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु		निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
			अंकों में	शब्दों में		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद् जयसिंहनगर, जिला शहडोल.	अध्यक्ष	—	—	अशोक	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	माया अरविन्द प्रजापति	निर्दलीय
3		पार्षद	2	दो	नसीम अब्दुल्ला	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	सेम्मू कोल	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	सरोज बैगा	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	रमाकान्त सोनी (कुल्ली)	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	सुमित कुशवाहा	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	संजय पंकज गुप्ता	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	अनिल कुमार द्विवेदी	निर्दलीय
10		पार्षद	9	नौ	“मीना”	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	मनोज बैगा	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	मंजू मिश्रा पति श्री सम्पत कुमार मिश्र	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	गजाला मेराज अली	निर्दलीय
14		पार्षद	13	तेरह	देवकी सोनी	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	छोटेराल अहिरवार	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पंद्रह	दुर्घट बहौरी कोल (बहौरिआइन)	निर्दलीय

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2017

क्र. एफ-65-01-2017-पांच-नपा-810.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद् झाबुआ, जिला झाबुआ के माह अगस्त, 2017 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगरपालिका परिषद्/ नगर पद परिषद् का नाम, जिले का अर्थात् नाम सहित	अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु		निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
			अंकों में	शब्दों में		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगरपालिका परिषद् झाबुआ, जिला झाबुआ.	अध्यक्ष	—	—	मनु डोडियार	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
2		पार्षद	1	एक	पपीश पानेरी	निर्दलीय
3		पार्षद	2	दो	नूरजहाँ अब्दुल	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन	शहनाज जाकिर हुसैन	निर्दलीय
5		पार्षद	4	चार	साबीर फिटवेल	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	नरेन्द्र-संधवी	निर्दलीय
7		पार्षद	6	छः	अजय सोनी (सोनू)	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	अब्दुल रशीद	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ	प्रिती जितेन्द्र पंचाल	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	सुनीता संतोष कहार	निर्दलीय
11		पार्षद	10	दस	उषा विवेक येवले	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
12		पार्षद	11	ग्यारह	शशी धूमसिंह डामोर	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	आयुशी भाबर	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	जुवानसिंह गुंडिया	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	हेमेन्द्र बबलू कटारा	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
16		पार्षद	15	पंद्रह	हेलन मेंड़ा	भारतीय जनता पार्टी
17		पार्षद	16	सोलह	रोशनी डोडियार	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
18		पार्षद	17	सत्रह	मालु डोडियार	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
19		पार्षद	18	अठारह	नरेन्द्र राठौरिया	निर्दलीय

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

## अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2017

क्र. एफ-65 NN-01-2017-पांच-811.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद् रानापुर, जिला झाबुआ के माह अगस्त, 2017 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगरपालिका परिषद्/ नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	नगर पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु		निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
			अंकों में	शब्दों में		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद् रानापुर, जिला झाबुआ.	अध्यक्ष	—	—	अजनार सुनीता	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	हरीश गोपाल नलवाया	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	दिलीप कुमार पिता भगला	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	आफरोज बी पति इमरान खान	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	रहुब बेन मिरजा	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	नारायण लाखाजी	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः	शकुन्तला कान्हा प्रजापति	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	कौशल्याबाई पति महेशचंद्र	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	शैलेश पिता भोलाराम	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	सीमा मुकेश	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	लिलेश हरसौला	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	संगीता बाई	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	लक्ष्मी	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	सुनिता किर्तीश राठौड	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	बदीबाई मांगु वसुनिया	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पंद्रह	डुंगरिया वसुनिया	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

## अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2017

क्र. एफ-65 N N-01-2017-पांच-812.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद् थंदला, जिला झाबुआ के माह अगस्त, 2017 में कराये

गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल अंकों में	केवल पार्षद हेतु शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद् थान्दला, जिला झाबुआ.	अध्यक्ष	—	—	बंटी सोहन नाना	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	गजेन्द्र चौहान	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	लक्ष्मण मोतीलाल जी राठौड	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन	संदीप उर्फ गोलु उपाध्याय	निर्दलीय
5		पार्षद	4	चार	रोहित भय्यू बैरागी	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	अजब बाई अजगर	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः	राजल राजेश जैन	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	आशुका कमलेश लोढ़ा	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	संगीता विश्वास सोनी	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	मनीष बघेल	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	रीना विकास रावत	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
12		पार्षद	11	ग्यारह	आनंद बाबुदादा चौहान	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	अफसाना बी अब्दुल कादर	निर्दलीय
14		पार्षद	13	तेरह	जैनबी जरदार शेख	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
15		पार्षद	14	चौदह	लिला मिर्कु भाबर	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पंद्रह	पीटर बबेरिया	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-  
( गिरीश शर्मा )  
उपसचिव,  
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

### अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2017

क्र. एफ-65-NN-01-2017-पांच-813.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक-37, सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद् पेटलावद, जिला झाबुआ के माह अगस्त, 2017 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल अंकों में	केवल पार्षद हेतु शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद् पेटलावद, जिला झाबुआ.	अध्यक्ष	—	—	मनोहर भटेवरा "मोटा भाई"	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	श्रीमती ममता प्रवीण पंवार	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3		पार्षद	2	दो	प्रकाश शंकरलाल मुलेवा	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	शान्ता राजेन्द्र मैडा	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	मंजु अनिल मुलेवा	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	कमलेश रामचन्द्र चौधरी	निर्दलीय
7		पार्षद	6	छः	मंगला शंकरलाल राठौड	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	मोहन देवा मैडा	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	जगदीश मगनलाल	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	श्रीमती माया पति सत्यनारायण सतोगिया.	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	सुनीता राजकुमार मुथा	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
12		पार्षद	11	ग्यारह	किरण संजय कहार	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	अशोक मगनलाल	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	सम्बुडी पति हरचंद	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
15		पार्षद	14	चौदह	किर्तिश चाणोदिया	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पंद्रह	राजुबाई रायचंद कटारा	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

### अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2017

क्र. एफ-65-NN-01-2017-पांच-816.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक-37, सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद् अलीराजपुर, जिला अलीराजपुर के माह अगस्त, 2017 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु		निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
			अंकों में	शब्दों में		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगरपालिका परिषद् अलीराजपुर, जिला अलीराजपुर.	अध्यक्ष	—	—	श्रीमती सेना महेश पटेल	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
2		पार्षद	1	एक	माधोसिंह पिता सुरभानसिंह	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	श्रीमती सुनीता सुरेश वाणी	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	संतोष थेपड़िया	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	ओछबलाल सोमानी	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	आनन्द सोलंकी	भारतीय जनता पार्टी



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7		पार्षद	6	छः	महेश भिण्डे	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	निखिलेश गिरी गोस्वामी	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	रितेश डावर	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	कमला रमेश	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	सीता जगदीश	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	श्रीमती वंदना राठौर	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	नाजिया शाबीर बाबा	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	कान्तीलाल राठौर	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	संतोष परवाल	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पंद्रह	आयशा चंदेरी	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
17		पार्षद	16	सोलह	सुनिता मेहता	भारतीय जनता पार्टी
18		पार्षद	17	सत्रह	श्रीमती किर्ती राजेश	भारतीय जनता पार्टी
19		पार्षद	18	अठारह	सुनिता राजू बामनिया	इण्डियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2017

क्र. एफ-65 NN-01-2017-पांच-817.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद् जोबट, जिला अलीराजपुर के माह अगस्त, 2017 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता	
(1)	(2)	(3)	अंकों में (4)	शब्दों में (5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद् जोबट, जिला अलीराजपुर.	अध्यक्ष	—	—	रमीला चौहान	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	किरणबाई	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	कूलसूम बी	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन	नजिमा मकरानी	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	अंजुमन बी	इण्डियन नेशनल कांग्रेस

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6		पार्षद	5	पांच	हेमा राठौड़	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	संजय कुमार वाणी	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	शीतल सोमानी	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	शंकरसिंह	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	महेश आसोरिया	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	अमृतलाल राठौड़	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	फारूक खत्री	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	सीमा डोडवे	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	अमन बघेल	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
15		पार्षद	14	चौदह	निलोफर बामानिया	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
16		पार्षद	15	पंद्रह	ज्योत्सना	इण्डियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

### अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2017

क्र. एफ-65-NN-01-2017-पांच-818.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक-37, सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, चंद्रशेखर आजाद नगर (भाभरा), जिला अलीराजपुर के माह अगस्त, 2017 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता	
(1)	(2)	(3)	अंकों में (4)	शब्दों में (5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद् चन्द्रशेखर आजाद नगर, जिला अलीराजपुर.	अध्यक्ष	—	—	निर्मला डावर	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	सुमित्रा पति इकराम	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	सविता लिमसिंह	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	नाथू-अमरा	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	रमीला-भगडसिंह	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	श्रीमति लीला पति राकेश	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	श्रीमति सुनिता डावर पति अभिजित डावर.	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8		पार्षद	7	सात	नरेन्द्र सिंह करणसिंह परमार.	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	सौफिया हुजेफा असद	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	रसीदा महबुब	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	अकलम बानो मकरानी	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	शकरीया-सेनिया	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	नारायण अरोडा	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	आशा पति राजेश जायसवाल	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
15		पार्षद	14	चौदह	अरोडा राजेश कुमार	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पंद्रह	धुन्धाबाई जमरा	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-  
( गिरीश शर्मा )  
उपसचिव,  
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.